



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 04 मार्च, 2023 / 13 फाल्गुन, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

ACADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
State of Himachal Pradesh, Shimla

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 4th January, 2023

No. 1-22/2009.—In supersession of this department's Notification No. 1-22/2009-40737-60 dated 18th August, 2022 and in exercise of the powers vested in me as the Head of the Department,

vide Himachal Pradesh Sarkar Vitt (Viniyam) Vibhag Notification No.1-2/73-Fin(Reg.), dated 23-7-1977 read with Rule 2 (20 & 32) of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, I, **Anup Kumar Rattan, Advocate General**, State of Himachal Pradesh, Shimla-171001, hereby declare **Shri Raksh Paul Singh, Deputy Advocate General** as **Head of the Office** as well as **Controlling Officer** in respect of **Class-II, III and Class-IV employees** of this department for all purposes *i.e.* Travelling, Medical Allowances and Service Matters etc., with immediate effect.

By order,

Sd/-
Advocate General.

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 03rd March, 2023

No. EXN-F-(10)-17/2022.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify “the Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023” as under:—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme shall be called the Himachal Pradesh Sadhbhawana Legacy Cases Resolution Scheme, 2023 (hereinafter referred to as the “Scheme”).

(2) It shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh and shall remain valid for a period of three months.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-para 2 of para (1), the Commissioner may extend the Scheme by another three months.

2. Definitions.—(1) In this Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

- (a) “additional demand” means the amount of tax, penalty and interest as assessed by the assessing authority under the subsumed enactment for a financial year or any return period for which declaration under the Scheme has been made;
- (b) “appellate authority” means the authority specified under para 13 of the Scheme;
- (c) “appellate forum” means the Supreme Court of India or the High Court of Himachal Pradesh or the State Tax Tribunal or the Financial Commissioner (Appeals) or the Commissioner, as the case may be;
- (d) “assessing authority” means an officer defined as such under the subsumed enactment;
- (e) “assessment order” means an order for determination of tax liability for a financial year or any return period under any of the subsumed enactments, passed in relation to assessment proceedings under such subsumed enactment;

-
- (f) “Commissioner” means the Commissioner of State Taxes and Excise;
- (g) “declarant” means a person being a dealer, owner, proprietor as defined under the subsumed enactment who has the liability to pay tax under such enactment;
- (h) “declaration” means the declaration filed under para 4 of the Scheme by the declarant;
- (i) “designated committee” means the committee as appointed by the Commissioner;
- (j) “discharge certificate” means the certificate issued by the designated committee under para 9 of the Scheme;
- (k) “person” includes,—
- (i) an individual;
 - (ii) a Hindu undivided family;
 - (iii) a company;
 - (iv) a registered society;
 - (v) a limited liability partnership;
 - (vi) a firm;
 - (vii) an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not;
 - (viii) the Government;
 - (ix) a local authority; and
 - (x) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding clauses;
- (l) “pending assessment” means determination of tax liability for a particular financial year or any return period which is pending for determination under the subsumed enactment;
- (m) “statutory forms” means Form ‘C’, ‘F’, ‘H’, ‘E1’, ‘E2’ as defined under the Central Sales Tax Act, 1956 and Form ‘D’, ‘ND’ as defined under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and any other relevant form required for availing concessional rate of tax under the subsumed enactment;
- (n) “settlement fee” means amount calculated as per the provisions of para 6 of the Scheme;
- (o) “settlement” means the process for issuing discharge certificate under the Scheme;
- (p) “subsumed enactment” means any Act repealed under section 173 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and section 64 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005;

(2) All other words and expressions used in the Scheme and not defined herein, shall have the same meaning as assigned to them in the subsumed enactment and in case of any conflict between two or more such meanings in any subsumed enactment, the meaning which is more congruent with the provisions of the Scheme shall be adopted.

3. Application of the Scheme.—(1) The Scheme shall apply to—

- (a) settlement of any additional demand pending for recovery pertaining to a financial year or any return period in respect of which assessment has been made, or
- (b) settlement of pending assessment and settlement of any demand on account of tax, penalty and interest that may accrue as a result of determination of tax liability of such pending assessment under a subsumed enactment.

4. Filing and acknowledgement of declaration.—(1) In order to avail the Scheme a declarant shall be required to file a declaration in the manner alongwith the proof of payment of settlement fee within such period as may be prescribed.

(2) The declaration shall be acknowledged in the prescribed manner:

Provided that an acknowledgment may not be issued, if the declaration is not accompanied by proof of payment of settlement fee and such other circumstances as may be prescribed.

5. Declarants not eligible to file declaration under the Scheme.—Subject to the provisions of para 4 of the Scheme, a declarant shall not be eligible to make a declaration under the Scheme in the following circumstances:—

- (a) if the declarant has filed an appeal before the appellate forum and such appeal has not been withdrawn on or before the day of submission of declaration under the Scheme;
- (b) if criminal proceedings have been initiated against the declarant for any reasons including tax fraud;
- (c) if a notice has been issued to the declarant under subsumed enactment for an erroneous refund or refunds;
- (d) if all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have not been produced either at the time of assessment or have not been filed alongwith the declaration under the Scheme and the tax due as per returns and settlement fee as per para 6 of the Scheme have not been paid.

6. Calculation of settlement fee.—(1) Where no statutory forms were required to be produced or all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have been produced either at the time of assessment or have been filed alongwith the declaration under the Scheme, the settlement fee shall be calculated as follows:—

- (i) if the declarant has filed all periodical returns within stipulated time along with payment of tax due as per such returns with respect to a financial year or any return period, settlement fee shall not be charged;

- (ii) if the declarant has not filed the periodical returns within stipulated time, but has made payment of tax due as per such returns with respect to a financial year or any return period, the settlement fee shall be calculated @ 10% of tax paid after the due date of filing the return or payment of tax;
- (iii) if the declarant has not filed tax returns and due tax has not been paid with respect to a financial year or any return period, settlement fee shall be calculated @ one hundred and ten percent of the tax amount applicable on the taxable turnover in such financial year or any return period as per the provisions of subsumed enactment and declared in the declaration under the Scheme.

(2) Where all the statutory forms required to be produced for applicability of concessional rate of tax under the subsumed enactment have not been produced either at the time of assessment or have not been filed along with the declaration under the Scheme and the tax due as per returns has been paid, the settlement fee shall be calculated as under:—

- (a) hundred percent of the tax paid against the turnover of transactions involved in such statutory forms as if the forms were available, which have not been produced either at the time of assessment or have not been filed along with the declaration under the Scheme, or
- (b) one percent of the value of the turnover of transactions involved in such statutory forms which have not been produced either at the time of assessment or have not been filed along with the declaration under the Scheme, or
- (c) whichever is higher.

7. Restriction with regards to settlement fee.—(1) Any amount paid as settlement fee under the Scheme,—

- (a) shall not be paid through the input tax credit;
- (b) shall not be refundable under any circumstances except in case of excess deposit of settlement fees by the applicant or in case of rejection of application by the designated committee;
- (c) shall not, under the subsumed enactment or under any other Act,—
 - (i) be taken as input tax credit, or
 - (ii) entitle any person to take input tax credit, as a recipient, of the taxable goods, with respect to the matter and time period covered in the declaration.

8. Payment of settlement fee.—(1) Where the tax liability has been assessed for the corresponding financial year or any return period for which declaration has been made, payment of settlement fee calculated under para 6 of the Scheme may be made by adjustment of any amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the additional demand for that financial year or any return period:

Provided that if the amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the

additional demand for a financial year or any return period by the declarant exceeds the amount of settlement fee, then the declarant shall not be entitled for refund:

Provided further that if the amount paid as pre-deposit at any stage of appellate proceedings under the subsumed enactment or deposited voluntarily or as part of recovery proceedings against the additional demand for a financial year or any return period by the declarant is less than the amount of settlement fee, then the declarant shall deposit the balance amount in the government treasury in the relevant head of account of the subsumed enactment.

(2) Where the tax liability for the corresponding financial year or any return period for which declaration has been made has not been assessed, payment of settlement fee calculated under para 6 of the Scheme shall be deposited in the government treasury in the relevant head of account of the subsumed enactment.

(3) The payment of settlement fee under sub-paras (1) and (2) shall be made in the prescribed manner.

9. Verification of declaration and issuance of discharge certificate by designated committee.—The designated committee shall verify the declaration wherein acknowledgment has been issued and may issue discharge certificate or reject such declaration in the prescribed manner:

Provided that the declarant whose declaration has been rejected may request for an opportunity of being heard within such period as may be prescribed.

10. Privileges emanating from discharge certificate.—(1) Every discharge certificate issued under para 9 of the Scheme with respect to the amount payable under the Scheme shall be conclusive as to the matter and time period stated therein, and—

- (a) the declarant shall not be liable to pay any further tax, interest, or penalty with respect to the matter and time period covered in the declaration;
- (b) the declarant shall not be liable to be prosecuted under the subsumed enactment with respect to the matter and time period covered in the declaration;
- (c) all matters and time period covered by such declaration shall not be reopened in any other proceeding under the subsumed enactment.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

- (a) no person being a party in appeal or revision shall contend that the designated committee has acquiesced in the decision on the disputed issue by issuing the discharge certificate under the Scheme;
- (b) where any material particular furnished in the declaration is subsequently found to be false, within a period of one year of issuance of the discharge certificate, it shall be presumed as if the declaration was never made and proceedings under the applicable subsumed enactment shall be instituted.

11. Rectification of errors.—The designated committee may modify the discharge certificate within one year of issuance of such certificate to correct an arithmetical error or clerical error, which is apparent on the face of record, on such error being pointed out by the declarant or *suo motu* by the designated committee.

12. Scrutiny of cases.—The cases wherein discharge certificate has been issued may be taken up for scrutiny within one year of the closure of the Scheme. However, a maximum of three percent of such cases may be taken up for scrutiny in the prescribed manner.

13. Appeals.—(1) The Commissioner may designate one or more officers not below the rank of Joint Commissioner of State Taxes and Excise, as Appellate Authority for the purposes of the Scheme.

(2) The aggrieved declarant may file an appeal before the appellate authority in the prescribed manner within a period of thirty days of the communication of any order passed against the declarant.

(3) The Appellate Authority may, if satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from preferring an appeal within the aforesaid prescribed period of thirty days, it may allow such appeal to be preferred within a further period not exceeding thirty days.

(4) The appellate authority may, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the discharge certificate or notice appealed against or referred to.

(5) The order referred to in sub-para (4) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under sub-para (2).

(6) A certified copy of the order pronounced by the appellate authority under sub-para (4) shall be sent to the appellant and the designated committee after such pronouncement.

Explanation.—For the provisions of this para, the appeal shall be deemed to have been filed only when the acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

14. Power of revision.—(1) The Commissioner may, of his own motion, call and examine the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any authority subordinate to him, for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of proceeding for the issuance of discharge certificate under the Scheme and, on finding the proceedings or the discharge certificate issued under the Scheme prejudicial to the interest of revenue may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that the powers under this sub-para shall be exercisable only within a period of one year from the date on which such order was communicated.

(2) The Commissioner may delegate the power under sub-para (1) to any officer not below the rank of Joint Commissioner.

(3) No order shall be passed under this para, which adversely affects any declarant unless such declarant has been given a reasonable opportunity of being heard.

15. Removal of doubts.—For the removal of doubts, it is hereby declared that, save as otherwise expressly provided in para 10 of the Scheme, nothing contained in the Scheme shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity on the declarant in any proceedings other than the matter and time period in relation to which the declaration has been made.

16. Power to make procedure.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, make procedure for carrying out the provisions of the Scheme.

17. Power to issue guidelines, directions, instructions etc.—(1) The Commissioner may, from time to time, issue such orders, instructions and directions to the authorities, as it may deem fit, for the proper administration of the Scheme, and such authorities, and all other persons employed in the execution of the Scheme shall observe and follow such orders, instructions and directions:

Provided that no such orders, instructions or directions shall be issued so as to require any designated committee to dispose of a particular case in a particular manner.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commissioner may, if it considers necessary or expedient so to do, for the purpose of proper and efficient administration of the Scheme, issue, from time to time, general or special orders in respect of any class of cases, setting forth directions or instructions as to the guidelines, principles or procedures to be followed by the authorities in the work relating to administration of the Scheme.

18. Removal of difficulty.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the State Government may, by order, published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Scheme, as appear it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date on which this Scheme come into force.

19. Protection to officers.—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything which is done in good-faith, or intended to be done, in pursuance of the Scheme or any procedure made thereunder.

(2) No proceeding, other than a suit shall be commenced against the State Government or any officer of the State Government for anything done or purported to have been done in pursuance of the Scheme, or any procedure made there under, without giving the State Government or such officer a prior notice of not less than one month in writing of the intended proceeding and of the cause thereof, or after the expiry of three months from the accrual of such cause.

(3) No proceeding shall be commenced against any officer only on the ground of subsequent detection of an error in calculating the amount of settlement fee payable by the declarant, unless there is evidence of misconduct.

By order,

Sd/-

(BHARAT KHERA),

Principal Secretary (ST&E).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं०: NT / 23

Sh. Urgin *alias* Urjen s/o Late Thondup, r/o Upper TCV, Scholl Dharamshala Cantt.,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Urgan *alias* Urjen s/o Late Thondup, r/o Upper TCV, Scholl Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी बेटी का जन्म दिनांक 11-10-1984 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Chemi Wangmo के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 08-03-2023 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 11-10-1984 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 02-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री राजिंदर सिंह राणा पुत्र श्री दलीप सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 बन भुलाना, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री राजिंदर सिंह राणा पुत्र श्री दलीप सिंह राणा, निवासी गांव व डा0 बन भुलाना, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में सही नाम राजिंदर सिंह राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भूखेड में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम राजिंदर पाल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक नाम राजस्व अभिलेख महाल भूखेड में सही नाम श्री राजिंदर सिंह राणा उर्फ राजिंदर पाल पुत्र श्री दलीप सिंह निवासी गांव भूखेड, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 09-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री प्रदीप कुमार डोगरा पुत्र श्री जुल्फी राम, निवासी गांव मेहला व डा0 सिम्बल, उप-तहसील
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री प्रदीप कुमार डोगरा पुत्र श्री जुल्फी राम, निवासी गांव मेहला व डा0 सिम्बल, उप-तहसील
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम
आधार कार्ड आदि में सही नाम प्रदीप कुमार डोगरा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मेहला में इंतकाल
तस्दीक करते समय उसका नाम डीफू दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक नाम राजस्व अभिलेख महाल
मेहला में सही नाम श्री प्रदीप कुमार डोगरा उर्फ डीफू पुत्र श्री जुल्फी निवासी गांव मेहला, उप-तहसील
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि
यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत
में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 09-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 05/NT/2023

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री कश्मीर सिंह पुत्र कन्हैया लाल, निवासी महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री कश्मीर सिंह पुत्र कन्हैया लाल, निवासी महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी माता सुती देवी पत्नी कन्हैया लाल का देहान्त दिनांक 30-06-1998 को महाल सम्लेतर, उप-तहसील चढियार में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 09-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 03/2023

किस्म मुकदमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती विमला देवी पत्नी सीता राम, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती विमला देवी पत्नी सीता राम, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरे भाई भगवान दास पुत्र शेर सिंह का देहान्त दिनांक 03-05-1983 को महाल कोठी, उप-तहसील चढियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुशत्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 09-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढियार
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 04/2023

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती विमला देवी पत्नी सीता राम, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती विमला देवी पत्नी सीता राम, निवासी महाल कोठी, उप-तहसील चढियार, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी सास बाह्मी देवी का देहान्त दिनांक
02-10-2011 को महाल कोठी, उप-तहसील चढियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत
कोठी में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाई जा सकी है। जिसकी पुष्टि हेतु स्थानीय पंचायत का अनापत्ति
प्रमाण-पत्र व अतिरिक्त जिला पंजीयक का प्रमाण-पत्र संलग्न है। इसलिए पंजीकरण करने के आदेश दिए
जाएं।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस
बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में
असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण
करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 09-02-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,
चढियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा
03/2022

तारीख रजुआ
01-12-2022

तारीख फैसला

1. शेर सिंह पुत्र ठाकुर चन्द, गांव खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

1. स्वर्ण सिंह पुत्र विध्या चन्द, गांव खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)
2. आम जनता उप-महाल कश्मीर व खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त बाबत भूमि खाता खतौनी नं0 79 मिन/131, खसरा नं0 687, रकबा तादादी 0-01-37 है0 उप-महाल कश्मीर के खाना काश्त में दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी शेर सिंह पुत्र ठाकुर चन्द, गांव खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार रखा है कि भूमि खाता खतौनी नं0 79 मिन/131, खसरा नं0 687, रकबा तादादी 0-01-37 है0 उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्तकार में उनका काश्त व कब्जा है परन्तु राजस्व अभिलेख में श्रीमती पदमा देवी हिस्सादार वाहिब स्वर्ण सिंह पुत्र विध्या चन्द पुत्र नरंचन दास स्थानीय वासी महुबाल्याकाश्त स्वयं महुबाल्या का कब्जा दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर काश्त व कब्जा स्वयं दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल कश्मीर व खवांगी को सूचित किया जाता है कि भूमि खाता खतौनी नं0 79 मिन/131, खसरा नं0 687, रकबा तादादी 0-01-37 है0 उप-महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खाना काश्त में कब्जा श्रीमती पदमा देवी हिस्सादार वाहिब स्वर्ण सिंह पुत्र विध्या चन्द पुत्र नरंचन दास के स्थान पर काश्त कब्जा स्वयं श्री शेर सिंह पुत्र ठाकुर चन्द, गांव खवांगी स्थानीय वासी दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-03-2023 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 10-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कल्पा,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0
17/2019

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती शजरा नस्ब

तारीख दायर : तारीख फैसला :
30-08-2019

श्री छेरिंग जरदन पुत्र श्री बिरमा सुख, निवासी गांव व डा0 बुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के नियम 37 व 38 के अन्तर्गत शजरा नस्ब की दुरुस्ती बारे।

श्री छेरिंग जरदन पुत्र श्री बिरमा सुख, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के शजरा नस्ब में गोत युग चमंग गलत दर्ज है। वादी अपना गोत बित्यान जो दर पुश्त दर चलते आ रहा है को दुरुस्त करने बारे दरखास्त इस अदालत में गुजारी है।

उपरोक्त तथ्यों कि मौका छानबीन गिरदावर कानूनगो कामरू से पाया कि राजस्व अभिलेख, मौजा बरूआ में वादी के खानदान का गोत युग चमंग दर्ज है। बन्दोबस्त से पूर्व के नकल शजरा नस्ब में खानदान दर्ज नहीं है। मौका छानबीन से यह भी पाया कि ग्राम बरूआ में युग चमंग नामक कोई भी खानदान/गोत मौजूद नहीं है। मुताबिक छानबीन से पाया गया प्रार्थी के परिवार का खानदान/गोत युग चमंग गलत दर्ज है। गांव बरूआ में वादी के परिवार/खानदान को गोत बित्यान के नाम से जानते व पुकारते हैं। ग्राम वासियों का भी यही कहना है कि प्रार्थी के परिवार व खानदान को गोत युग चमंग के बजाए बित्यान की जाती है तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री छेरिंग जरदन पुत्र श्री बिरमा सुख, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के खानदान/गोत बित्यान दुरुस्त किया जाने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार खानदान/गोत दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा सं0
02/2022

किस्म मुकद्दमा :
राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती

तारीख दायर : तारीख फैसला :
23-12-2022

मुकद्दमा शीर्ष : श्री जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37 के तहत राजस्व माल कागजात में वादी का नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख, निवासी गांव व डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सांगला के राजस्व माल कागजात में जोगिन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार

रजिस्टर व आधार कार्ड में मेरा नाम जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में मौजा सांगला में अपना नाम जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों कि मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से करवाई गई। मुताबिक मौका छानबीन व दस्तावेजों से पाया कि वादी का सही नाम जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख सही है लेकिन राजस्व अभिलेख में गलत नाम जोगिन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख दर्ज हुआ है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में जोगिन्दर सिंह से जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख किया जाना उचित है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि वादी जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख मौजा सांगला के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असातन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम जगन्दर सिंह पुत्र श्याम सुख राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा सं०
07/2022

किस्म मुकद्दमा :
राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती

तारीख दायर :
14-11-2022

मुकद्दमा शीर्ष : श्री कृष्ण सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— राजस्व माल कागजात में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री कृष्ण सिंह पुत्र स्व० देवी सिंह, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक का नाम पटवार वृत्त सापनी मौजा ब्रुआ के राजस्व माल कागजात में कोनचोग नेगेडुब पुत्र देवी दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। नकल परिवार रजिस्टर व आधार कार्ड में वादी का नाम कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह दर्ज है। वादी राजस्व माल कागजात में मौजा ब्रुआ में अपना नाम कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों कि मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से करवाई गई। मुताबिक छानबीन मौका क्षेत्रीय इकाइयों से पाया गया कि वादी का नाम कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह सही है जबकि राजस्व माल कागजात मौजा ब्रुआ में गलत नाम कोनचोग नेगेडुब पुत्र देवी सिंह दर्ज है। वादी के नकल परिवार रजिस्टर, आधार

कार्ड एवं स्कूल सर्टिफिकेट में भी कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह नाम दर्ज है। लोग भी ग्राम ब्रुआ में वादी को कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह के नाम से जानते व पुकारते हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कृष्ण सिंह पुत्र देवी सिंह का नाम मौजा ब्रुआ के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त किया जाना है इस बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा सं0
05/2022

किस्म मुकद्दमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : तारीख फैसला :
02-07-2022

मुकद्दमा शीर्ष : श्री टाशी डण्डुप पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—स्व0 श्रीमती विधा देवी पत्नी श्री देवी सिंह की मृत्यु तिथि दिनांक 25-01-1995 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्री टाशी डण्डुप पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह, निवासी गांव व डा0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती विधा देवी का देहान्त तिथि 25-01-1995 को हुई थी। अज्ञानता के कारण वादी ने अपनी माता की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री टाशी डण्डुप पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह की माता स्व0 श्रीमती विधा देवी के मृत्यु दिनांक 25-01-1995 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्व0 श्रीमती विधा देवी के मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री बी0 एल0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

मुकदमा सं0
08/2022

किस्म मुकदमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : तारीख फैसला :
02-07-2022

मुकदमा शीर्ष : श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा0 रक्छम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा0 रक्छम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री सारिका एवं भूमिका की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत रक्छम के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत रक्छम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जय प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह की पुत्रियों की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत रक्छम के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। जन्म तिथि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र0 सं0	पुत्रियों का विवरण	जन्म तिथि
1.	सारिका पुत्री जय प्रकाश	05-06-1992
2.	भूमिका पुत्री जय प्रकाश	06-04-1998

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 24-01-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री बी० एल० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि०प्र०)**

मुकदमा सं०
09/2022

किस्म मुकदमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : तारीख फैसला :
12-12-2022

मुकदमा शीर्ष : श्री भजन लाल पुत्र श्री उमेद पुर, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—कु० अर्चना पुत्री भजन लाल, निवासी गांव ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 15 के अन्तर्गत जन्म तिथि एवं नाम दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री भजन लाल पुत्र श्री उमेद पुर, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री अर्चना की जन्म तिथि 01-05-1989 व पुत्री का नाम अर्चना कुमारी, ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पंजी में गलत दर्ज हुआ है जबकि उनकी पुत्री का दिनांक जन्म 01-06-1989 को हुआ था व उनका वास्तविक नाम अर्चना है की दुरुस्ती बारे दरखास्त गुजारी है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि/नाम की दुरुस्ती का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भजन लाल पुत्र श्री उमेद पुर, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) की पुत्री अर्चना की जन्म तिथि 01-05-1989 के स्थान पर दिनांक 01-06-1989 व अर्चना कुमारी के स्थान पर अर्चना ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दुरुस्त करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार अर्चना की जन्म तिथि/नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

**ब अदालत श्री बी० एल० नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि०प्र०)**

मुकदमा सं०
01/2023

किस्म मुकदमा :
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : तारीख फैसला :
19-01-2022

मुकदमा शीर्ष : श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डा० कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—कु0 अराध्या पुत्री प्रवीन कुमार, निवासी गांव व डा0 कामरु, की जन्म तिथि दिनांक 07-03-2019 का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री अराध्या का जन्म दिनांक 07-03-2019 को हुआ था अज्ञानता के कारण वादी ने अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कामरु के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है। अब वादी उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की पुत्री कुमारी अराध्या की जन्म तिथि 07-03-2019 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार अराध्या पुत्री प्रवीन कुमार की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 10-02-2023 को जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Verma have changed my name from Rakesh Kumar or Rakesh Kumar Verma (Old Name) to Rakesh Verma (New Name) by affidavit sworn before the Notary Public Nahan on 02-03-2023 henceforth. I shall be known as Rakesh Verma for all purposes Rakesh Verma (Name) H. No. 271, Ward No. 2, Hospital Round Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.). (Complete Postal Address).

RAKESH VERMA
H. No. 271, Ward No. 2,
Hospital Round Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

